



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 248]  
No. 248]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 7, 1984/आषाढ़ 16, 1906  
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7, 1984/ASADHA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1984

सं० 157/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां०का०नि० 497(अ) — केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय  
उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1)  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार  
के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं०  
153/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1984  
की अधिक्रान्त करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और तमक  
अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की  
सद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले 300 किलो वोल्ट  
एम्पियर से अधिक रेटिंग के ट्रांसफार्मरों को, उक्त पहली  
अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन  
उन पर उद्घाटनीय उपरि उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना  
मूल्य के साढ़े सात प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से  
अधिक है।

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1984 तक, जिसमें  
यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 146/3/84-के०उ०शु०-4]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 1984

No. 157/84-CENTRAL-EXCISES

G.S.R. 497 (E).—In exercise of the powers con-  
ferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise  
Rules, 1944, and in supersession of the notification  
of the Government of India in the Ministry of Finance  
(Department of Revenue) No. 153/84-Central Excises,  
dated the 1st July, 1984, the Central Government  
hereby exempts Transformers of rating above 300  
K.V.A., falling under Item No. 68 of the First Sched-  
ule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of  
1944), from so much of the duty of excise leviable  
thereon under the said Act at the rate specified in the

said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of seven and a half per cent *ad-valorem*.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th September, 1984.

[F. No. 146/3/84-CX. 4]

सं० 158/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 498(प्र) :-—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, यथास्थिति, (राजस्व और वीमा विभाग) या (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में और संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	93/76-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 10 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :- "10. रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक इंजीनियरी सेवा और चल ट्रोपो और चल राडार एककों के तकनीकी भवन।"
2.	56/78 केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क तारीख 1 मार्च, 1978	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 10 और उसमें संबंधित प्रवि- ष्टियों के स्थान पर निम्न- लिखित क्रम सं० और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :- "10. रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक इंजीनियरी सेवा और चल ट्रोपो और चल राडार एककों के तकनीकी भवन।"

[फा० सं० 145/14/82-के० उ० शु० 4]

आर० के० चन्द्र, उप सचिव

## No. 158/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 498(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or (Department of Revenue), as the case may be, specified in column ( ) of the Table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendment
1	2	3
1.	93/76-Central Excises, dated the 16th March 1976.	In the Schedule annexed to the said notification, for serial No. 10 and the entry relating thereto, the following serial No. and entry shall be substituted namely :—  "10. Technical Buildings of Military Engineering Service and Mobile Tropo and Mobile Radar units under the Ministry of Defence."
2.	56/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978.	In the Schedule annexed to the said notification, for serial No. 10 and the entry relating thereto, the following serial No. and entry shall be substituted, namely :—  "10. Technical Buildings of Military Engineering Service and Mobile Tropo and Mobile Radar units under the Ministry of Defence."

[F. No. 145/14/82-CX. 4]

R.K. CHANDRA, Dy. Secy.